Minda Industries Ltd.



Ref.No. Z-IV/R-39/D-2/NSE/207 & 174

Date: 28/01/2021

| National Stock Exchange of India Ltd. | BSE Ltd. |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Listing Deptt., Exchange Plaza, | Regd. Office: Floor - 25, |
| Bandra Kurla Complex, Bandra (E), | Phiroze Jeejeebhoy Towers, |
| Mumbai - 400 051 | Dalal Street, Mumbai-400 001. |
| NSE Scrip: MINDAIND | BSE Scrip: 532539 |

Sub: Submission of Newspapers Clipping

Dear Sir(s),

This is in continuation to our earlier letter dated 27 January,2021, wherein we have intimated the stock exchanges that the next meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 04 February, 2021.

In this regard, the "Notice" of the Company was published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers today i.e. on 28 January, 2021. We are enclosing herewith the newspapers clipping.

Delhi

It is for your information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For MINDA INDUSTRIES LTD.

skivastava

Tarun Kumar Srivastava

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above.

FINANCIAL EXPRESS

TOWER INSTALLATION

Fee hike by Delhi civic bodies: Telcos to write to DoT

KIRAN RATHEE New Delhi, January 27

MOBILE OPERATORS IN Delhi may face deterioration of services as installation of new towers in the Capital has come to a halt for the past over two months with the portal set up to take applications lying defunct most of the times. The telcos are also complaining about the 150% increase in permission fee for installing towers by the municipal corporations of Delhi.

The rates have been increased to ₹5 lakh for fiveyears as compared to ₹2 lakh for five-years earlier. The revised rates will force telecom operators to shell out ₹120 crore for putting towers in NDMC areas for five years.

Apart from the permission fee, telcos need to pay rentals to the tenants. Usually, the rental for Delhi ranges anywhere from ₹25,000 per tower to ₹50,000 per tower, depending on the locality. Apart from that, companies need to spend on electricity and diesel to run the mobile towers.

The telecom industry has strongly objected to the increase in charges by the municipal bodies and two meetings have

RAMGOPAL POLYTEX LIMITED CIN: L17110MH1981PLC024145 Regd. Office: Greentex Clearing House,

B - 1, 2 & 3, Gosrani Compound, Rehnal Village Bhiwandi, District-Thane - 421302. Corp. Office: 701, Tulsiani Chambers Free Press Journal Marg, Nariman Point Mumbai - 400021, Tel: + 91 22 22834838

Fax: + 91 22 22851085 E mail id: rplcompliance@ramgopalpolytex.com Website: www.ramgopalpolytex.com

NOTICE Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 05, 2021, at the Corporate Office of the Company, inter-alia, to consider and take on record the Unaudited Financial Results along with other matters of the Company for the quarter and nine months period ended December 31, 2020. Further, the said notice is also available

on the website of the Company at www.ramgopalpolytex.com and also on the website of Stock exchange(s) at www.bseindia.com & www.cse-india.com.

For Ramgopal Polytex Limited Manorama Yadav Company Secretary & Compliance Officer

(ICSI Membership No.: A36619) Place: Mumbai Date : January 27, 2021

SCHABLONA INDIA LIMITED CIN: L51109DL1983PLC318655 Regd. Office: 82/19 Bhakerwara

Road, Mundka, New Delhi-110 041; Phone No.:011-28341085 Email: silinvestors@schablona.in Website: www.schablona.in

Pursuant to Regulations 29(1)(a) and 47(1)(a) of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held in Noida through Video Conferencing on Monday, the 8th February, 2021, to consider inter alia, the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2020, along with the

Segment wise Revenue, Results and Capital Employed as on that date. The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.schablona.in and on the website of the Stock Exchange where the Company's shares are presently listed, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com

For Schablona India Limited

(Ritika Mansata) Place: Kolkata Company Secretary Dated: 27.01.2021 Mem. No.A34156

> PUBLIC NOTICE Form No. INC-25 A Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region, New Delhi

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

having its registered office at D-24, Near N.M.C. Hospital Sector-30, Gautam Buddha Nagar, Noida, UP- 201301,

In the matter of M/s Bajpai Foods Limited

Notice is hereby given to the general public that the Company intending to make an application to the Central Government under Section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on January 20, 2021 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2, Second Floor, Pt Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its Registered Office at the

address mentioned below: Registered Office: D-24, Near N.M.C. Hospital Sector-30, Gautam Buddha Nagar, Noida, UP 201301

For and on behalf of Bajpai Foods Limited

Mahesh Chandr Bajpai Place: Noida, U.P. Director Date: 27.01.2021 DIN: 02434188 Address: D-24, Near N.M.C. Hospital Sector-30, Gautam Buddha Nagar,

Real estate sentiment index in Oct-Dec highest in 2020

FE BUREAU New Delhi, January 27

THE KNIGHT FRANK-FICCI-Naredco real estate sentiment index hit its highest mark in 2020 during the October-December period, rising for the second consecutive quarter in a row after Q1 and Q2 were a washout due to the Covid-19induced disruptions. It entered the optimistic zone at 54 points in Q4 2020, a significant jump of 14 points over the previous quarter.

The future sentiment score rose to 65 points in Q4 2020 from 52 points in Q3 2020. Geographically, the western part of the country saw the sharpest jump in future sentiment index.Forstakeholders,both developers and non-developers (banks, NBFCs, PE funds, etc) recorded an improvement in Future Sentiment score in Q4 2020.

"The current sentiment score jumped considerably to 54 in Q4 2020 from 40 in Q3 2020, entering the optimistic zone for the first time in 2020," the report said. For comparison sake, a score of more than 50 signifies 'optimism' in sentiments, while 50 means the sentiment is 'same' or 'neutral', and a score below 50 signifies 'pessimism'.

The October-December

Traction in the residential

segment continued in Q4 on the back of festive discounts, pent-up demand and low home loan interest rates

2020 quarter continued to see an improvement in the business momentum. Office space leasing grew as global players began acting on their pending and anticipated lease plans encouraged by the news of multiple potential Covid-19 vaccines. Traction in the residential segment continued in O4 on the back of festive discounts, pent-up

demand and low home

Classifieds

PERSONAL

I,Rakesh S/o Hari Singh R/o D-320 Mangolpuri Delhi have changed my name as Ram Babu permanently.

0040561492-10

loan interest rates.

On the macroeconomic front, 82% of the respondents opined that the economy would grow further in the coming six months as opposed to 57% of respondents with the same view in Q3 2020.

INTEC CAPITAL LIMITED NOTICE UNDER SEC. 13 (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT Demand Notice dated 18.01.2021 Sent on 19.01.2021 by Speed Post to (1

M/S HP ENTERPRISES (Borrower) THROUGH ITS PROPRIETOR, MR SURENDER KUMAR PANDEY At PLOT NO. 90, GALI NO. 8, KADIPUR INDUSTRIAL AREA, GURGAON - 122001 (2) MR. SURENDER KUMAR PANDEY (Guarantor) At H.NO. K-1/201 A, MOHAN GARDEN, UTTAN NAGAR, NEW DELHI-110059. (3) MRS. MAYA PANDEY (Guarantor) At I.NO. K-1/201 A, MOHAN GARDÉN, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059 (4) MRS. UTTAM RAJI PANDEY (Guarantor) At H.NO. K-1/201 A, MOHAN ARDEN, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059 SUBJECT: Loan Account No. LNGGN02414-150004217 dated 24.07.2014

You, committed default in repayment of loans and as such your Loan Accoun aintained with Intec Capital Limited was declared Non-Performing Asset

NPA) on 31.03.2017 and a sum of Rs. 73,40,834/- (Rupees Seventy Three

Lacs Forty Thousand Eight Hundred Thirty Four Only) is outstanding as or The Intec Capital Limited issued notice dated 18.01.2021 under the Ac on 19.01.2021 calling upon you to repay the outstanding amount of Rs. 73,40,834/- (Rupees Seventy Three Lacs Forty Thousand Eight

Hundred Thirty Four Only) as on 31.12.2020. You are called upon to pay Rs. 73,40,834/- (Rupees Seventy Three Lacs Forty Thousand Eight Hundred Thirty Four Only) within 60 days from the fate of this notice failing which Intec Capital Limited will be constrained to exercise its rights of enforcement of security Interest as against the Secured Assets given in the Schedule hereunder. This notice is without prejudice to any

The specific details of the assets in which security Interest is created an HYPOTHECATED ASSETS: (1) DH-200 MOULDING MACHINE

Area, Gurgaon - 122001 Dated: 25.01.2021

Installed at M/s HP Enterprises, Plot No. 90, Gali No. 8, Kadipur Industria

other right remedy available to the Intec Capital Limited.

NAINITAL BANK LTD.

SALENOTICE

Liquidator: CA Anil Goel Liquidator Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash-I, New Delhi -110048. Email: assetsale1@aaainsolvency.in, lohaispat@aaainsolvency.com Mob.- 8800865284 (Puneet Sachdeva)

E-Auction Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of E-Auction: 09th February, 2021 at 3.00 PM to 5.00 PM (With unlimited extension of 5 minutes each) Last date of submission of EMD: 08th February, 2021

Sale of Assets and Properties owned by Loha Ispaat Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench vide order dated April 26 2018 (order communicated on June 26, 2018). The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform

| Asset | Block | Reserve Price | Amount | Value |
|--|-------|------------------|---------------|---------|
| Plant & Machinery at Plot No. A-79, MIDC, Taloja Industrial Estate, Village Pendhar, Taluka Panvel, District Raigad | A | 2.07 Crores | 21 Lakhs | 1 Lakh |
| Plant & Machinery at Plot No. A-69, MIDC, Taloja Industrial Estate, Village Pendhar, Taluka Panvel, District Raigad | В | 3.47 Crores | 35 Lakhs | 1 Lakh |
| Cranes (Total 34 Cranes) | - 7 | | | |
| at S. No. 2 (H. No.1, 2, 4, 4/A, 5 & 6), S. No. 4 (H. No.1, 2), S No.5 (H. No. 1/A, 1/B, 1/C/2, 2, 3,4), S.No. 6 (H. No. 2, 3), S. No. 7 (H. No. 1/A/1, 1/A/2, 1/A/3, 1/B, 1/C, 1D, 2 & 3), S. No. 96,at Village Ransai, Khopoli, Taluka | C | 9.25 Crores | 92.5 Lakhs | 2 Lakhs |
| Khalapur, District Raigad | | | | |
| Plant & Machinery (Excluding Cranes and Shed) | - 8 | | | |
| at S. No. 2 (H. No.1, 2, 4, 4/A, 5 & 6), S. No. 4 (H. No.1, 2), S No.5 (H. No. 1/A, 1/B, 1/C/2, 2, 3,4), S.No. 6 (H. No. 2, 3), S. No. 7 (H. No. 1/A/1, 1/A/2, 1/A/3, 1/B, 1/C, 1D, 2 & 3), S. No. 96,at Village Ransai, Khopoli, Taluka | D | 43.06 Crores | 4.3 Crore | 5 Lakhs |
| Khalapur, District Raigad | |) | | |

1. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS". "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger)

2. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning

3. The Liquidator reserves the right to give priority to bidders who will participate in both BLOCK C and D to ensur maximum realization of assets. Hence, the bidder placing the highest bid cumulatively shall be declared as the

All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the website of AAA Insolvency Professionals LLP i.e. https://insolvencyandbankruptcy.in / and from the E-Auction Process Document, prior to submission of

EMD and participation in the process. The Liquidator can be contacted on lohaispat@aaainsolvency.com.

Liquidator in the matter of Loha Ispaat Limite

IBBI (Regn. No- IBBI/IPA-001/IP-00118/2017-18/10253 Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash - I, New Delhi -110048 Email: assetsale1@aaainsolvency.com, anilgoel@aaainsolvency.com Contact No.: Mr. Puneet Sachdeva: +91-8800865284, 011-4666 4625

E-AUCTION NOTICE

BFL ASSET FINVEST LIMITED

Regd. Office: 1, Taranagar, Ajmer Road, Jaipur-302006 • Ph.: 9214018877 CIN: L452D1RJ1995PLCD10646 . E. : bfldevelopers@gmail.com . W.: www.bflfin.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, February 04, 2021at 04:00 P.M., at the registered office of the Company situated at 1, Tara Nagar, Ajmer Road, Jaipur -302006 (Rajasthan), interalia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine month: ended on December 31, 2020 and to take on record Limited Review Report thereon. This Intimation is also available on Company's website at www.bflfin.com and on Stock Exchange's website at

For BFL Asset Finvest Limited Date: January 27, 2021 CS Surbhi Rawat Company Secretary and Compliance Officer (M.No. A49694) Place: Jaipur

MINDA INDUSTRIES LIMITED CIN: L74899DL1992PLC050333

Regd. Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area Delhi-110052 Website: www.unominda.com

already taken place between the

stakeholders, including officials

of the Department of Telecom-

munications (DoT) and local

bodies. However, so far, no solu-

tion has been found. The telcos

are soon going to write to DoT,

expressing their concerns

TR Dua, director-general,

Tower and Infrastructure

Providers Association (TAIPA)

said, "This arbitrary increase in

the fee by NDMC & SDMC is a

violation of the settlement

agreement between MCD and

the telecom industry which was

signed under the direction of

the high court in January 2020."

regarding the hiked rates.

E-mail: investor@mindagroup.com



Tel.: +91 11 4937 3931, +91 124 2290 427/28 Fax: +91 124 2290676/95

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provision of Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Minda Industries Limited will be help on Thursday, 04 February, 2021, inter-alia, to consider and approve the Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31 December 2020. The Notice is also available on the website of the company www.unominda.com

and stock exchanges website viz. www.nseindia.com and www.bseinda.com.

Place: Delhi Date: 27th January 2021

For and on behalf of the Board of MINDA INDUSTRIES LTD Tarun Kumar Srivastava Company Secretary & Compliance Officer

DFM

CIN: L15311DL1993PLC052624 Regd. Office: 8377, Roshanara Road, Delhi-110007 Corporate Office: 1401-1411, 14th Floor, Logix City Center, Sector-32, Noida-201301 (U.P.) Tel: 0120-6013232 Fax: 011-23822409 Email: dfm@dfmfoods.com Website: www.dfmfoods.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company to be held on Friday, February 5th, 2021 to consider inter alia the Unaudited financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2020.

For further details, please visit the website of the Company (www.dfmfoods.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).

Place: Noida Dated: 27th January, 2021

Indian Bank

For DFM Foods Ltd.

Company Secretary

इंडियन बैंक

🛕 इलाहाबाद Corporate Office,

ALLAHABAD

254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

NOTICE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER

AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Bank will be held on Tuesday, the 02" March 2021 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) ("e-EGM") to conduct the following business:

Raising equity capital aggregating up to Rs.4000 crore through Qualified Institutions Placements (QIPs) / Follow on Public Offer (FPO)/ Rights Issue or in combination thereof.

The Corporate Office of the Bank shall be the deemed venue of the meeting.

The Electronic copies of the Notice of the e-EGM will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered in the Bank's Shareholding Records/Depository Participants(s) Records as on 22" January 2021. Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose email IDs are not registered are requested to register their email addresses and mobile numbers with their Depositories through their Depositary Participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to demat their holdings / furnish their email addresses and mobile numbers to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Unit: Indian Bank, Subramanian Building, V Floor, No.1, Club House Road, Chennai - 600002 at email id, investor@cameoindia.com,

Shareholders holding shares in physical mode and who are desirous of receiving the Notice of the Meeting by email may get their email ID temporarily registered by clicking the link, https://investors.cameoindia.com and entering their e-mail IDs. The Notice of e-EGM will also be made available on the Bank's website, www.indianbank.in and on the website of Stock Exchanges, NSE & BSE, www.nseindia.com & www.bseindia.com.

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the e-EGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the e-EGM Notice. The details will also be made available on the Bank's website. Shareholders are requested to visit Bank's website www.indianbank.in to obtain such

Shareholders may please note that the Bank will not be sending physical copies of e-EGM Notice to the Shareholders.

for social distancing and restrictions on assembly of persons. In the event lockdown is lifted in entirety or assembly restrictions are eased, the Bank may, in addition to conducting the Meeting through VC/OAVM, consider holding the e-EGM at the venue located in Chennai. The Bank will notify the shareholders of the change in mode of conduct of the Meeting and its venue by intimating the Stock Exchanges, publishing notice in the newspapers, and also hosting the same on the website of the Bank).

Place: Chennai Date: 27.01.2021 Dina Nath Kumar Interest Act, 2002 read with Rule 8 (6)& 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

E-Auction through website https://sarfaesi.auctiontiger.net

Ajay Kumar, H. No-19, Model Wide Rasta, North-Plot of Vendee, South-

SHEDULE

WHEREAS, the undersigned being the Authorized officer of The Nainital Bank Limited under The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 31.12.2016 calling upon the borrowers M/s Bajrang Food Products, and guarantors namely 1. Shri Ajay KumarS/o Desh Raj 2. Shri Madan Lal Ahuja S/o Shri Hans Raj to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 36,62,672.50 (Rupees Thirty Six Lakh Sixty Two Thousand Six hundred Seventy Two and Fifty Paise only) plus interest and other expenses with effect from 31.12.2016 within 60 days from the date of receipt of the said notice. WHEREAS the Borrowers having failed to repay the amount/dues in full to the Bank as called for in the said Demand Notice, the Bank has taken physical possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 & 9 of the said Rules on 10.03.2017. With the right to sell the same for realization of Bank's dues. The undersigned in exercise of powers conferred under Section 13(4) proposes to realize the Bank's dues by sale of undermentioned property(ies). ACCORDINGLY, the Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the constructive/physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Nainital Bank Limited the Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", "Whatever there is" and "No recourse" basis through E- Auction for recovery of amount mentioned in the table below along with further interest, cost and expenses being due to Nainital Bank Limited viz. Secured Creditor. It is hereby informed you that we are going to conduct public

SALE OF ASSETS THROUGH ONLINE E-AUCTION UNDER SARFAESI ACT 2002

E-auction Sale Notice for Sale of Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Guru Nanak Market Gadarpur, District: Udham Singh Nagar (Uttarakhand) Phone-05949-231994

Date of Notice U/s 13(2), Reserve Price Account No. to EMD submission date Name and Address of Date of Possession Notice Status of Description of Property and time & **EMD** Deposit U/s 13 (4) & Total dues Borrower(s)/ Guarantor(s) Possession Date EMD/BID amount. Bid Increase Amount E-Auction date and Time less recovery if any. & Time (1) M/s Bajrang Food Products: Land and Building in the name of Sheenam Account Number: 31.12.2016 ₹ 15.50 Lakh Last Date of EMD Physical Gokuldham Colony, Sakenia Road, Chawla D/o Ajay Kumar Having Khasra No. 12.02.2021 10.00 AM to 03.00 PN 052 9002 (Rs. Fifteen Lakh Submission Gadarpur, District- Udham Singh 217.102Sq Mt or 2336.02 Sq. Feets 10.03.2017 IFSC CODE: Fifty Thousand 17.02.2021 NTBL0GAD052 Only) Nagar Uttarakhand (Borrower). situated at RevenueVillage Barakhera, ₹ 36,62,672.50 up to 4.00 PM Or through (2) Shri Ankit Chawla S/o Ajay Sakenia Road, Tehsil Gadarpur, District-₹ 1.55 Lakh (Rupees Thirty Six Lakh Demand Draft in Kumar, R/o - H. No-19, Model Udham Singh Nagar, Uttarakhand, Sale E-Auction on (Rs. One Lakh Sixty Two Thousand Colony, Rudrapur, District- Udham deed registered in the office of Sub favor of The 18.02.2021 Fifty Five Six Hundred Seventy Two Singh Nagar Uttarakhand registrar, Bazpur in Bahi No. 1, Zild No. (Partner) Nainital Bank Ltd, from 11:00 AM Thousand Only) and Fifty Paise only) to be deposited to 1:00 PM (Partner). plus interest and other 30.06.2015. Bounded by : East- Property with Bank's ₹ 50,000/-(3) Km. Sheenam Chawla D/o of Suresh Kamboj and others, West- 20' (with unlimited expenses.

Colony, Near Ramesh Kirana Store, Land of Vendor. Rudrapur, District- Udham Singh Nagar Uttarakhand (Partner). (4) Shri Ajay Kumar S/o Desh Raj, R/o - H. No-19, Model Colony, Rudrapur, District- Udham Singh Nagar Uttarakhand (Guarantor). (5) Shri Madan Lal Ahuja S/o Shri Hans Raj, R/o Ward No.9, Punjabi Colony, Gadarpur, District- Udham Singh Nagar. (Guarantor). All Interested participants / bidders are requested to visit the website https://sarfaesi.auctiontiger.net & www.nainitalbank.co.in(Banksite) for further details including

Terms & Conditions, to take part in e-auction sale proceeding and are also advised to contact Bank's Service Provider e-Procurement Technologies Ltd. Mr. Chintan Bhatt, Contact Number 9978591888 and e-mail of chintan.bhatt@auctiontiger.net. THIS IS A STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE TO BORROWER/GUARANTOR/ MORTGAGOR UNDER SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

Authorized Officer, The Nainital Bank Limited Place: Gadarpur, U.S. Nagar Date: 28.01.2021

RELIANCE





Rs. Fifty Thousand

tech care, with all our heart.

Gadarpur Branch

extension of

5 min each)

Unaudited Financial Results for the period ended 31st December, 2020

Gross Written Premium **Profit Before Tax** ₹6379 ₹287 ₹176 Q3 2020-21 Q3 2020-21 Q3 2020-21 (5") 5 ₹6060 ₹186 Q3 2019-20 Q3 2019-20

Net-worth Investment

₹2022

As At Dec 2020

₹1773

As At Dec 2019

Place: Mumbai

Date: 18th January, 2021

₹12386

As At Dec 2020 ₹10526

As At Dec 2019

1.65 As At Dec 2020

1.53 As At Dec 2019

December 2020 in compliance with IRDAI Circular No. IRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010 dated 28th January, 2010

Rakesh Jain

For and on behalf of the Board of Directors

Reliance General Insurance Company Limited

Executive Director & CEO

Reliance General Insurance Company Limited. Registered & Corporate Office: Reliance Center, South Wing, 4th Floor, Off. Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai - 400 055. IRDAI Regn. No. 103 dated 23.10.2000. Website: www.reliancegeneral.co.in, 1800 3009 (Toll Free), Corporate Identity Number (CIN): U66603MH2000PLC128300. Trade Logo displayed belongs to Anil Dhirubhai Ambani Ventures Private Limited and used by Reliance General Insurance Company Limited under license. RGI/MCOM/CO/ACC-FY21-Q3/VER.1.0/180121.

Note: The above is an extract of the detailed format of the Public disclosure uploaded in company's website for the guarter ended

financialexp.epap.in

Noida, UP 201301

(At the time of issue of this Notice of e-EGM, due to COVID-19 pandemic there are norms

For Indian Bank Asst. General Manager & Company Secretary

New Delhi

Profit After Tax

Q3 2019-20

Solvency Ratio

Ξ,

जेएमटी ऑटो लिमिटेड (एमटेक समृह की कम्पनी) (CIN: L42274DL1997PLC270939) पंजी. कार्यालय: 3 एलएससी, पम्पोश एन्क्लेव, गुरु नानक मार्केट, एलएससी मार्केट के सामने, नई दिल्ली-1100048 फोन: 0657-6626340, ईमेल: jmt.auto@jmtauto.com, वेबसाईटः www.jmtauto.com

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिए शेयरधारकों के लिए

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा संशोधित तथा अधिसुचित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (लेखा, ऑडिट तथा रिफंड नियमावली), 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के

अनुपालन में यह सचना दी जाती है। नियमावली में अन्य बातों के अलावे ऐसे सभी शेयरों का निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में अंतरण का प्रावधान है जिसके लिए लगातार सात वर्षों से शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान अथवा उसका दावा नहीं किया गया है। तद्नुसार, कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों उनके पंजीकृत पते पर वैयक्तिक सूचना भेज दी गई है जिनकी शेयरों को उक्त नियमों के अंतर्गत आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है। कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों तथा वर्ष 2012-13 से आईईपीएफ में अंतरण के लिए नियत शेयरों के विवरणों को अपनी वेबसाईट www.jmtauto.com पर भी अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से आग्रह है कि इन विवरणों की जांच

के लिए वेबसाईट पर निवेशक संबंध पेज देखें। नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद ऐसी शेयरों पर उपचयित सभी लाभों सहित आईईपीएफ में अंतरित शेयरों को आईईपीएफ से वापस प्राप्त करने का दावा किया जा सकता है। इस विषय पर किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए कृपया कम्पनी के आरटीए सीबी मैनेजमेन्ट सर्विसेस लि., पी-22 बांडेल रोड, कोलकाता-700019, टेली. नं. 033-4011-6700, ईमेल- rta@cbmsl.com से संपर्क करें

जेएमटी ऑटो लिमिटेड के लिए



स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 27.01.2021

भारतीय नौंवहन निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालयः शिपिंग हाउस, 245 मैडम कामा रोड, मुंबई – 40002 1. वेबसाइट: www.shipindia.com Twitter: @shippingcorp • सीआईएन: L63030MH1950GOI008033

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 29 और 47 के संदर्भ में कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार दिनांक 05 फरवरी 2021 को कंपनी के मुंबई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होगी, जिसमें अन्य बातों विचार करने और अनुमोदन करने के साथ साथ सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत कंपनी के दिनांक 31,12,2020 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय नतीजे

कंपनी की वेबसाइट www.shipindia.com पर उक्त सूचना एक्सेस की जा सकती है तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात् www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उक्त सूचना एक्सेस की जा सकती है.

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड

(मोना के बहादुर

दिनांक: 28/01/2021

दिपंकर हालदार कार्यकारी निदेशक (विधिक कार्य) एवं कंपनी सचिव

السب النبيل المدر السيار النبيل السين المدر الس कार्गो मंजिल तक पहुँचाए. जीवन को राह दिखाए.



ई-पूनः निविदा आमत्रण सूचना

महाप्रबंधक / एक्सपोटेक, राइटस लिमिटेड निम्नलिखित के लिए एकल लिफाफा प्रणाली में खुली निविदा ऑनलाइन बोली आमंत्रित करते हैं:

वस्तु एवं मात्रा | नीचे किए गए उल्लेख अनुसार एक्स मुंबई समुद्री बंदरगाह से बैरा समुद्र बंदरगाह. मोजाम्बिक तक सीआईएफ आधार पर कन्साइनमेंट के निर्यात के लिए फ्रेट फारवर्डर की नियक्तिः 06 केप गेज लोकोमोटिव्स और इसके स्पेयर्स एक्स बीएलडब्ल्यू, वाराणसी, उ.प्र. लगभग 300 सीबीएम स्पेयर्स एक्स बीएलजब्ब्यू, वाराणसी / राइट्स वेअर हाउस, दिल्ली निविदा सन्दर्भ | राइटस / एक्सपो / मोज. / लोको / 122020

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 06.02.2021 को 18:00 बजे तक नेविदा प्रपन्न और अन्य विवरण वेबसाइट http://ritesltd.com और सीपीपी पोर्टल https://etenders.gov.in/ eprocure/app से प्राप्त किए जा सकते हैं। परिशिष्ट / शुद्धि, यदि कोई हो, केवल ऑनलाइन ही होस्ट की जाएगी

मिंडा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड CIN: 74899DL1992PLCO50333

पंजीकृत कार्यालय : बी-64/1, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, | दिल्ली-110052, **टेली**.: +91-011 4937 3931, 0124-2290427/28 फैक्स: 0124-2290676/95



ई-मेल : investor@mindagroup.com, वेबसाइट: www.unominda.com

सेबी (सचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन, 29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 4 फरवरी, 2021 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समेकित परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

यह सूचना कंपनी की वेबसाईट www.unominda.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से

मिंडा इंडस्टीज लिमिटेड

(तरुण कुमार श्रीवास्तव) स्थानः दिल्ली तिथि: 27 जनवरी, 2021

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सार्वजनिक सूचना

आंध्र प्रदेश गैस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीजीपीसीएल), पंजी, कॉर्यालय: #201, दसरी मंजिल, माई होम सरोवर प्लाजा, सेक्रेटेरिएट रोड, हैदराबाद - 500063, के गुम हुए मूल शेयर प्रमाण पत्रों के बारे में नोटिस, जोकि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (मारत सरकार के उपक्रम), आईडीपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय -गृडगांव (हरियाणा राज्य), की सम्पत्ति है और निम्नलिखित शयरों के पंजीकृत धारक है इसके द्वारा नोटिस दें रहे है कि निम्नलिखित मूल शेयर के प्रमाण पत्र लापता है और आईडीपीएल ने ङ्प्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एपीजीपीसीएल में आवेदन किया है। निम्नलिखित शेयरों के संबंध में दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस तारीख से 15 दिनों के भीतर उपरोक्त संदर्भित पते पर एपीजीपीसीएल के पास इससे संबंधित दावें दर्ज करने होगें, अन्यथा एपीजीपीसीएल इप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पारंभ करेगा और लसके उपरांत कंपनी किसी भी दावें पर कार्यवाही नहीं करेगी।

| फोलियो नं. | प्रमाणपत्र नं. | भेदकारी नं. | शेयरो की संख्या | बिजली का आवंटन | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| 12 | 12 | 6298071-6391870 | 93800 | 0.35 MW - स्टेज-I | |
| 12 | 41 | 34711431-35349270 | 637840 | 2.38 MW - स्टेज-2 | |

दिनांक : 28, जनवरी 2021 स्थान : नई दिल्ली

आईडीपीएल, गुड़गाँव

OSBI

विपणन एवं संप्रेषण विभाग, कॉरपीरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, 9वां तल, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.

प्रस्ताव हेत् निवेदन

भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई के लिए विपणन के उपक्रमों के रणनीतिक नियोजन एवं क्रियान्वन के लिए एजेंसी के सूचीकरण के लिए 'प्रस्ताव हेतु निवेदन' (आरएफपी) जारी किया है (आरएफपी नं. सीसी/एम एंड सी/2020-21/07). कृपया बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi पर विज़िट करें. विस्तृत आरएफपी दस्तावेज के लिए "प्रोक्योरमेंट न्यूज" विभाग देखें. भविष्य में इस संबंध में की जाने वाली घोषणाओं, यदि हों, के लिए

कपया वेबसाइट देखते रहें. स्थान: मंबई | दिनांक: 21.01.2021 उप महाप्रबंधक (विपणन एवं संप्रेषण)

OSBI

डिजिटल एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग-प्रोडक्ट्स एंड ऑपरेशन्स डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई.

शुद्धिपत्र - 2

कृपया एंटरप्राइज़ वाइड लॉयल्टी प्रोग्राम के प्रबंधन के लिए आरएफ़पी नं. SBI/EWLP/RFP/001/2020-21 दिनांक 01/01/2021 को देखें जो इस समाचार पत्र में 01/01/2021 को प्रकाशित हुआ था। कृपया दिनांक 15/01/2021 की शुद्धिपत्र सूचना को भी देखें जो इस समाचार पत्र में 16/01/2021 को प्रकाशित हुई थी। शुद्धिपत्र-2 का विवरण हुमारी वेबसाइट: https://bank.sbi, https://www.sbi.co.in पर 'प्रोक्योरमेंट न्यूज़' के अंतर्गत और https://etender.sbi/ पर उपलब्ध है।

स्थान: मुंबई दिनांक: 28.01.2021

उप महाप्रबंधक (डेबिट कार्ड्स)

PTC India Financial Services Limited (CIN: L65999DL2006PLC153373) Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaii Cama Place, New Delhi - 110 066, India Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374, Website: www. ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of PTC India Financial Services Limited ("the Company") to be held Thursday, 4th February, 2021, inter-alia, to consider, approve and take on record the un-audited financial results along with the limited review report of the statutory auditors for the guarter and nine months ended 31st December, 2020 for FY 2020-21.

www.ptcfinancial.com and on the recognized stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com)

For PTC India Financial Services Limited

Place: New Delhi Date: 27th January, 2021 Company Secretary

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में } केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

ओबैट मैडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74900DL2010PTC204096) जिसका पंजीकत कार्यालय: 2994, दूसरी मंजिल, गली ने. 222, चन्दर नगर, त्रिनगर, नई दिल्ली-110035 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्त्ता तदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी न्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की गरा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती हैं। जिसमें कंपनी का पंजीकत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी**

इंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपध पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो. के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दसरा तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-- 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें । 2994, दूसरी मंजिल, गली न. 222, चन्दर नगर,

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से ओबैट मैडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड दिनांक : 27.01.2021 आयुष मस्कारा (निदेशक) डीआईएन: 06744537

(CIN: L99999UP1961PLC001187) Regd. Office: Kamla Tower. Kanpur - 208 001 (India)

Ph. No. 91 512 2371478-81 Fax: 91 512 2332665 E-Mail-prabhat.mishra@jaykayenterprises.com;

Regulation 29(1)(a) read with 47(1) of inancial Results of the Company for the Regulation 33 of LODR Regulations. This Information is also available on the Website of the Company and the Stock

Exchange i.e www.bseindia.com. For Jaykay Enterprises Ltd.

CFO & Company Secretary

Date: January 27, 2021

IEC

E-mail ID: cs@iecgroup.in Website: www.iecgroup.in

Requirements) Regulations, 2015, notice is 4.00 p.m. inter alia, to consider, approve and take on record Unaudited Quarterly Financial Results (standalone and consolidated) along with Limited Review Report for the Quarter and nine months ended December 31, 2020.

urther, this intimation is available on the website of Bombay stock exchange at www.bseindia.com

Navin Gupta

Date: 27.01.2021

Managing Director DIN: 00097128 **MSTC** लिमिटेड



25 सी. ए.जे भी. बोल शेव. कोलकाल 700020 everge: www.mstcindia.co.in. दूरभाष: 2281-9627/3068

www.msteindia.co.in पर एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध

> कृते एमएसटीसी निमिटेड (अजय कुमार राय)

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स्थान : कोलकाता तारीख: 28,01,2021

> हर एक काम देश के नाम

CIN: L15421DL1952PLC354222 पंजी. कार्यालय: बिरला मिल कॉम्प्लैक्स. पी. ओ. बिरला लाईन्स. जीटी रोड. नजदीक क्लॉक टॉवर, कमला नगर, उत्तरी दिल्ली-110007 इमेलः ig.gsml@adventz.com वेबसाइटः www.zuarisugar.com

सेबी (आपत्तियों के सुचीकरण एवं प्रकृटीकरण

अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 29 व 33 www.msei.in पर भी उपलब्ध है।

गौरव दत्ता

कंपनी सचिव

दिनांकः 28.01.2021

स्थानः गुरूग्राम

छत्तीसगढ़ में 24 नक्सलियों ने किया समर्पण

दंतेवाडा, 27 जनवरी (भाषा)। छत्तीसगढ के दंतेवाड़ा जिले में 12 महिलाओं समेत कुल 24 नक्सिलयों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि ये नक्सली दक्षिण बस्तर क्षेत्र में सिक्रय

थे। इन्होंने मंगलवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। पल्लव ने कहा कि समर्पण करने वालों में तीन पर एक-एक लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। अधिकारी ने कहा कि नक्सलियों ने खोखली माओवादी विचारधारा से निराश होकर समर्पण कर दिया।

झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मामले), मुख्य अभियंता का कार्यालय 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई- निविदा आमंत्रण सुवना ई-निविदा संख्या:- 01/2020-21/RDD(RWA)/DUMKA

दिनांक: 27.01.2021 मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मा०), झारखंड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement

पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है। आईडेन्टी कार्य का नाम प्राक्कलित राशि (रूपये में) कार्य फिकेशन संख्या / समाप्ति अंक में की तिथि पैकेज संख्या ग्राम पंचायत मालभंडारो चिमटाही 3,29,45,700.00 तीन करोड़ उनतीस RDD(RWA)/ 15 माह DUMKA/01/ हाथी मोड से बकियाडीह, ड्मरसोल लाख पँतालीस होते हुए मुरलीडुम तक पथ निर्माण हजार सात सौ रू० 2020-21 (लं0-4.455 किं0मी0) ग्राम पंचायत गोलपुर दो करोड चौरानवे RDD(RWA)/ 2,94,92,400.00 ग्राम–डोमटोला गोलपुर से लाख बेरानवे हजार DUMKA/02/ मारीटोला तक पथ निर्माण चार सौ रू० मात्र 2020-21

(ল0-3.668 কি০দী০) जरगढ़ी आर०ई०ओ० पथ से 15 माह 2,67,33,600.00 दो करोड़ सड़सठ RDD(RWA)/ लाख तैंतीस हजार कुंजबोना प्रधानटोला स्कूल तक पथ DUMKA/03/ 2020-21 छ: सौ रू० मात्र निर्माण (लं0-3.000 कि0मी0) पुतुलजोर से बिरिन्दाबनी तक पथ 1,47,51,700.00 एक करोड़ सँतालीस RDD(RWA) लाख एकावन हजार DUMKA/04/ निर्माण (लंo-2.000 किंoमीo) सात सी रू० मात्र 2020-21 ग्राम पंचायत पकडीया मेन रोड से एक करोड पैतालीस RDD(RWA)/ 1,45,24,800.00 DUMKA/05/ अमजोला तक पथ निर्माण लाख चौबीस हजार आठ सौ रू० मात्र 2020-21 (लं0-2.000 कि0मी0)

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 05.02.2021

ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 18.02.2021 अपराहन 5.00 बजे। 4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता

दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 19.02.2021 पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 3.30 बजे तक। निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 22.02.2021 पूर्वाहन 11.30 बजे।

 निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:— मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मामले) झारखंड, रांची, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, रांची। ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2207818

8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रावकावमामले), कार्य प्रमंडल, **दमका** के पक्ष में भूगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है। नोडल पदाधिकारी ई—प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 240223 (Rural Work Department)20-21#D स्विश मिलिटरी कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड CIN: L51100DL1989PLC034797

पंजी. कार्यालय- डब्ल्डू-39, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज II, नई दिल्ली-110020 ईमेल: network.limited@gmail.com

वेबसाइट: www.networklimited.net 31 दिसम्बर. 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

| | | | (જ ભાલા મ |
|--|--------|---|---|
| विवरण | | पूर्व वर्ष की तत्स्थानीय तिमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित) | समाप्त नौ महीने के लिये 31.12.2020 (अनंकेक्षित) |
| परिचालनों से कुल आय | 25.91 | 33.24 | 196.28 |
| अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, असाधारण मदों से पूर्व) | | - 9.03 | - 20.59 |
| कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदीं के बाद) | | - 9.03 | - 20.59 |
| कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद) | - 6.91 | - 9.03 | - 20.59 |
| कुल व्यापक आय | - 1 | - 9.03 | _ |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 982.97 | 982.97 | 982.97 |
| आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का) (असाधारण मदों के बाद) (वार्षिकीकृत नहीं) | | | |
| क) मूल : | - 0.01 | - 0.02 | - 0.04 |
| ख) तरल : | - 0.01 | - 0.02 | - 0.04 |

टिप्पणी:

- 1) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा एवं सिफारिश की गई 27.01.2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।
- 2) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई नौ महीने महीने के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। तिमाही/ नौ महीने के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.networklimited.net) पर उपलब्ध हैं।

बोर्ड के आदेश से स्विश मिलिटरी कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड के लिये हस्ता./-

तिथि: 27.01.2021 स्थानः नर्ड दिल्ली उमोंग सेठी निदेशक

मुंबई में कल से बहाल होंगी 204 लोकल ट्रेनें

मुंबई, 27 जनवरी (भाषा)।

मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में शुक्रवार से 204 विशेष लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की ओर से मंगलवार को जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के साथ ही उपनगरीय नेटवर्क पर चालू सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर 2,985 हो जाएगी। वर्तमान में ये सेवाएं यात्रियों के चुनिंदा वर्ग के लिए ही उपलब्ध हैं।

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि 204 अतिरिक्त सेवाएं शुरू होने के साथ कुल लोकल ट्रेन सेवाओं की लगभग 95 फीसद सेवाएं बहाल हो जाएंगी जो कोविड-19 महामारी से पहले मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही थीं। लोकल ट्रेन सेवाओं की संख्या बढ़ाने से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सभी यात्रियों को उपनगरीय ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देने पर फैसला जल्द किया जाएगा। वर्तमान में कोविड-19 महामारी को देखते हुए केवल कुछ श्रेणी के यात्रियों को ही मुंबई क्षेत्र में लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति है जिसमें महिलाएं और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग शामिल हैं। मध्य रेलवे ने अब 1,580 उपनगरीय सेवा की संख्या को बढ़ाकर 1,685 कर दिया है और पश्चिमी रेलवे ने 1,201 सेवाओं को बढ़ाकर 1,300 कर दिया है।

TENDER

Sealed bids from eligible registered manufacturers/suppliers having permanent GST Number and providing equipment/ service to at east seventy Housing Societies in Dwarka ND are invited for dismantling of old and supply installation, testing and commissioning of four numbers of new machine room lifts as per specifications of tender document available in the office of Great Capital CGHS, Plot-15, Sector-6, Dwarka, ND from 04.02.2021 to 10.02.2021. As a purely rough estimate the total work is estimated to cost about Forty Four Lakh Rupees.

For and on behalf of **Great Capital CGHS Limited**

प्रतिभाग नहीं किया जा सकता।

VERSUS

CARK WIRES'S INFORTECHTLID.

(रु लाखों में)

आंध्र प्रदेश में दो संक्रमितों की मौत

अमरावती (आंध्र प्रदेश), 27 जनवरी (भाषा)। आंध्र प्रदेश में गत 24 घटें में कोविड-19 के 111 नए मामले आए हैं जिन्हें मिलाकार राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 8,87,349 हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, बुधवार को सुबह नौ बजे तक के आंकड़ों के अनुसार दो संक्रमितों की मौत हुई है।

जर्जर भवन नीलामी विज्ञप्ति

परिषदीय प्रा.वि.-बेनीपुर एवं परिषदीय प्रा. वि.-सरायखेमा, वि.ख.-अमेठी, जनपद-अमेठी। पत्रांक- नी.वि./12/2020-21 दिनांक 27.01.2021 उपरोक्त विद्यालयों के परिसर में स्थित पुराने जर्जर भवन की नीलामी दिनांकः 10.02.2021 को होर्न है, नीलामी में इच्छुक प्रतिभाग कर्ता जर्जर, भवन को विद्यालय परिसर में जाकर देख सकते हैं एव नियम शर्तो मुल्यांकन, धनराशि, प्रतिभृति धनराशि आदि का विवरण निर्धारित प्रपत्र संबंधित विद्यालय

के प्रधानाध्यापक से दिनांक 05.02.2021 तक प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक 100/00

रुपये प्रति प्रपत्र की दर से प्राप्त कर सकते हैं, निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.02.2021 वे

President

अपरान्ह 03.00 बजे तक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा प्रधानाध्यापक प्रा.वि.-बेनीपुर प्रा.वि.-सरायखेम

वि.ख.-अमेठी, जनपद-अमेठी

प्रक्रिकाः Nfb. 06

APPLICANT

DEFENDANTS

DEBTS:RECOVERY TRIBUNAL-II Autward No. 68/2021 3rd Floor₃-Bhikhuhhai Ghanaber, 1881 Gnadhi Kunij Society, Opp. Deepald Fletrot Permontellistridaes Ahmedahad 2038,0006.

MHA. 12/2020 NOTICE THROUGH PAPER PUBLICATION EDECWEISS ASSET RECONSTRUCTION COM. LTD.

मुहेवा में, (2) SAIRITHANAS HTUADHA 72. SADARSOCHETY, DONARAULANBANAHONOBIH GDA, GDA 0403004.

(3) SHRLRAJESH LADHA 1501, 2ND FLOOR, BHAGIRATH PALACE, CHANDNI CHOWK, NEW DELHI - 110006. 1501, 2र्ग तल, भागरथ पेल्स, चांदनी चोक, नई दिल्ली - 110006 application in this 1501. 2रा तल, भागिरथ पलस, चादना चाक, नुइ ादल्ला- । 10000 WHEREAS the above named applicant has filed the above referred application in this जस्म कि ऊपर नामिक आवेदक ने इस अधिकरण में उपराक्त आवेदन दाखिल किया है। 1. श्रेंभा ERE AS प्राप्त राज्य । त्या प्राप्त के विकास में कि कि स्वाप्त कि कि स्वाप्त कि कि स्वाप्त कि कि स क्षक्षित्तकरमध्यक्रप्रप्रस्थात्वयङ्कर्ता स्टेक्क्य pमेंट क्षेत्रं के अवल्डियक इसी प्रस्वविष्ट हार फिल्मा खड़ा करें

2. अगंपभी विनर्देश दिया जाता है कि 8.2.2021 को 10.30 बजे पूर्वा. में व्यक्तिगत अथवा किसी
2. You are directed to appear before this Tribunal in person of through an Advocate and file Written Statement / Say on 08.02.2021 at 10.30 a.m. and show cause as to why reflects prayed for should not be granted and appear of the granted and मेरे क्षाञ्चा गरेट तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज 11 जनवरी, 2021 को दी गई। GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF THE TRIBUNAL ON THIS 11th JANUARY, 2021

PREPARED BY CHĚCKED BY ASST. REGISTRAR

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि — 682018, केरल,

मारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.12.2019 की अवधि तक NPA खातों & 30.09.2020 की अवधि तक नकली / कम शुद्धता) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

Gwalior: FBL-3, MAL-1109, MUL-644, 815, 870, MWS-556, 1269, Gwalior-Jayendra Ganj: MSL-12495, MUL-1160, 1183, 1246, 1285, 1529, 1534, MWS-213, 387, 733, 759, 825, 1061, 1949, 2009, 2142, 2188, Gwalior-Gole Ka Mandir: MUL-1148, 1180, 1329, 1330, 1353, 1751, 1769, 1794, 1806, 2777, MWS-36, 71, 80, 680, 682, 720, 740, 779, 802, 821, 1075, 1969, Gwalior-Jail Road: MUL-1241, 1342, 1436, 1556, 1656, 1780, 1826, 1839, 1899, 1954, 1978, 2057, 2149, 2173, 2185, 2248, 2277, 2348, 2525, 2584, 2633, 2636, 2637, 2667, 3104, 3159, 3160, 3483, 3485, 3578, 3610, 3970, 5003, 5585, MWS-54, 527, 591, 994, Gwalior-Phool Bagh: MSL-6047, MWS-94, 3159, 3160, 3483, 3485, 3578, 3610, 3970, 5003, 5585, MWS-54, 527, 591, 994, Gwalior-Phool Bagh: MSL-6047, MWS-94, 3159, 3160, 3483, 3485, 3578, 3610, 3970, 5003, 5585, MWS-54, 527, 591, 994, Gwalior-Phool Bagh: MSL-6047, MWS-94, 3159, 3160, 3483, 3485, 3578, 3610, 3970, 5003, 5585, MWS-54, 527, 591, 994, Gwalior-Phool Bagh: MSL-6047, MWS-94, 3159, 3160, 3483, 3485, 3578, 3610, 3970, 5003, 5585, MWS-54, 527, 591, 994, Gwalior-Phool Bagh: MSL-6047, MWS-94, 3159, 3160, 3483, 3485, 3578, 3610, 3970, 5003, 5585, MWS-54, 527, 591, 994, Gwalior-Phool Bagh: MSL-6047, MWS-94, 3159, 3160, 3483, 3485, 3578, 3610, 3970, 5003, 5585, MWS-54, 527, 591, 994, Gwalior-Phool Bagh: MSL-6047, MWS-94, 3159, 3160, 3483, 3485, 3578, 3610, 3970, 5003, 5585, MWS-54, 527, 591, 994, Gwalior-Phool Bagh: MSL-6047, MWS-94, 3159, 3160 95, 180, 297, 309, 328, 332, 396, 408, 470, 736, 746, 867, 1034, 1208, 1248, 1255, 1273, 1277, 1325, 1329, 2000, 2045, 2080, 2345, 2421, 3073 द्वितिय नीलामी की तिथि: 05.02.2021, Auction Centre: Second Floor, Alaknanda Tower, 45 -A, City Center, Gwalior - 474 001, Madhya Pradesh

प्रथम नीलामी की तिथि: 04.02.2021 Shivpuri-(MP): MAL-382, MUL-499, 658, 815, 841, 1112, 1171, 1330, 1394, 1426, 1564, 1606, 1966, 2029, 2419

द्वितिय नीलामी की तिथि: 06.02.2021, Auction Centre: Ground Floor, Agrawal Palace, Kotwali Road, Shivpuri M.P Pin :473551

प्रथम नीलामी की तिथि: 04.02.2021 Harda-(MP): MUL-1594, 1843, 1859, 1876, 1930, 1968, 1970, MWS-618, 713, 818, 842, 849, 860, 902, 931, 1034, 1139, 1199, 1235, 1236, 1308, 1385, 1651, 1681, 1689, 1734, 1759, 1772, 1889, 1932, 1966, 1975, 1981, 2050,

2251, 2886, 2905, 3101, 3271, 3355, 3539, 3587, 3652, 3910, 3974, 4229 द्वितिय नीलामी की तिथि: 08.02.2021, Auction Centre: Ground Floor, Khasra No-192, New Salji Mandi Chowk, Infront Of Vivekanand Complex, Harda, MP - 461331 प्रथम नीलामी की तिथि: 04.02.2021

प्रथम नीलामी की तिथि: 04.02.2021

पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

Ratlam-Kasera Bazar: MGL-652, 725, MUL-426, 682, 687, 1276, 1278 द्वितिय नीलामी की तिथि: 09.02.2021, Auction Centre: Muthoot Finance, Shop No. 19, Near Maheswari Dharmesal, Kasera Bazar, Ratlam - 457001 प्रथम नीलामी की तिथि: 04.02.2021

Dhar-(MP): MSL-12146, 12627, MUL-1199, 1420, 1585, 1587, 1647, 1648, 1906, 1981, 2046, 2264, 2343, 2496, 2604, 3213, 3425, 3485, 3667, 3726, 3750, 3801, 3871, 4002, 4039, 4171, 4195, 4240, 4281, 5811 द्वितय नीलामी की तिथि: 10.02.2021, Auction Centre: Muthoot Finance Limited, Ground Floor, H No. 20-25, Bohra Bazar, Bank Of India Building, Dhar, MP

प्रथम नीलामी की तिथि: 04.02.2021

Ujjain: MAL-1288, MSL-11494, 11541, MUL-523, 546, 767, 789, 965, 1043, 1095, 1229, 1329, 1401, 1415, 1428, 1436, 1449, 1455, 1469, 1544, 1548, 1589, 1593, 1628, 1686, 1687, 1766, 1805, 2142, 2147, 2159, 2164, 2194, 2 2276, 2345, 2387, 2426, 2888, 3276, MWS-2, 118, 149, 351, 355, 625, 740, 862, 884, 1018, 1096, 1109, 1113, 1132, 1153, 1167, 1201, 1241, 1363, 1608, 1679, 1685, 1745, 1785, 1977, 2092, 2199, 2214, 2419, 2427, 2453, 2454, 2 3188, Ujjain-New Mahakal Road: MUL-569, 583, 632, 644, 666, 710, 746, 748, 751, 771, 868, 884, 966, 967, 1018, 1068, 1083, 1125, 1128, 1151, 1205, 1222, 1242, 1279, 1284, 1306, 1323, 1333, 1357, 1371, 1374, 1391, 1395, 1404, 1426, 1453, 1464, 1532, 1538, 1569, 1587, 1618, 1667, 1677, 1717, 1807, 1855, 1916, 1933, 2295, 2482, 2755, 2890, 2967, 3008, 3017, 3043, 3098, 3144, 3170, 3171, 4367, 4772, Ujjain-Jawahar Marg Nagda: MSL-2102, 2202, MUL-120, 342, 825, 954, 1037, 1040, 1122, 1175, 1276, 1301, 2054, 2153, 2157, 2158, 2186, 2700

द्वितिय नीलामी की तिथि: 11.02.2021, Auction Centre: First Floor, Plot No. 50, Kamla Nehru Marg (Mungee Nursing Home Chouraha), Freeganj, Ujjain, MP - 456010 प्रथम नीलामी की तिथि: 04.02.2021

Dewas: MSL-14297, 14551, 14691, 14692, 14850, MUL-309, 588, 702, 1003, 1218, 1277, 1431, 1628, 1691, 1701, 1726, 1776, 1791, 1799, 1929, 1991, 2161, 2174, 2200, 2262, 2264, 2275, 2289, 2308, 2323, 2330, 2351, 2408, 2321, 2322, 2323, 2323, 2324, 2325, 2324, 2325, 2326, 2 2479, 2547, 2687, 2693, 2731, 2778, 2782, 2786, 2787, 2825, 2826, 2827, 2832, 2837, 2854, 2859, 2875, 2890, 2894, 2914, 2918, 2922, 2934, 2964, 2965, 2998, 3029, 3060, 3105, 3187, 3289, 3291, 3456, 3498, 3515, 3568 3676, 3679, 3896, 4176, 4186, 4681, 5270, MWS-54, 85, 148, 533, 665, 715, 803, 834, 895, 941, 1036, Dewas-Station Road: MAL-747, 1164, MSL-5317, 5355, 5406, MUL-452, 543, 676, 764, 845, 959, 1008, 1207, 1255, 1339, 1391, 1461, 1509, 1541, 1646, 1725, 1739, 1740, 1743, 1880, 1893, 1911, 1972, 2175, 2192, 2199, 2240, 2244, 2322, 2663, 3110, 3228, 3245, MWS-262, 440, 888, 926, 1104, 1206, 1230, 1491, 1681, 1746, 1800, 2341, RGL-470, 746, 770, Dewas-Bhopal Chouraha: MAL-1108, 2532, MSL-8512, 8788, 8936, 8998, 9169, 9180, 9197, MUL-183, 812, 869, 939, 1162, 1209, 1293, 1302, 1328, 1329, 1334, 1431, 1534, 1656, 1737, 1739, 2021, 2044, 2045, 2046, 2294, 2378, 2435, 2440, 2713, 2727, 2734, 3082, 3170, 3556, 3557, 3637, 3791, 3909, 3973, 4158, 4597, 4678, MWS-13, 864, 871, 887, 983, 1327, 1712, 1761, 2201, Sonkatch-(MP): MUL-1573, 1599, 1742, 1982, 2058, 2181, 2624, 2975, 3005, 3124, 3155, 3315, 3394, 3412, 3444, 3632, 3638, 3648, 3673, 3694, 3703, 3738, 3741, 3760, 3812, 3890, 4591, 4996, RGL-391 द्वितिय नीलामी की तिथि: 12.02.2021, Auction Centre: Ground Floor, Premises No. 123-A, Kalani Bagh, A. B. Road, Dewas, Madhya Pradesh - 455001 प्रथम नीलामी की तिथि: 04.02.2021

Indore-Maharani Road: MUL-495, MWS-193, 361, 362, 408, 804, 1082, 1087, 1410, 1456, Indore-M.G Road: MWS-106, 114, 263, 341, 386, 764, 788, 853, 872, 928, 1005, 1353, 1413, 1442, 1468, 1557, 1589, 1628, Indore-M.G Road: MWS-106, 114, 263, 341, 386, 764, 788, 853, 872, 928, 1005, 1353, 1413, 1442, 1468, 1557, 1589, 1628, Indore-M.G Road: MWS-106, 114, 263, 341, 386, 764, 788, 853, 872, 928, 1005, 1353, 1413, 1442, 1468, 1557, 1589, 1628, Indore-M.G Road: MWS-106, 114, 263, 341, 386, 764, 788, 853, 872, 928, 1005, 1353, 1413, 1442, 1468, 1557, 1589, 1628, Indore-M.G Road: MWS-106, 114, 263, 341, 386, 764, 788, 853, 872, 928, 1005, 1353, 1413, 1442, 1468, 1557, 1589, 1628, Indore-M.G Road: MWS-106, 114, 263, 341, 386, 764, 788, 853, 872, 928, 1005, 1353, 1413, 1442, 1468, 1557, 1589, 1628, Indore-M.G Road: MWS-106, 114, 263, 341, 386, 764, 788, 853, 872, 928, 1005, 1353, 1413, 1442, 1468, 1557, 1589, 1628, Indore-M.G Road: MWS-106, 114, 263, 341, 386, 764, 788, 853, 872, 928, 1005, 1353, 1413, 1442, 1468, 1557, 1589, 1628, Indore-M.G Road: MWS-106, 114, 263, 341, 386, 764, 788, 853, 872, 928, 1005, 1353, 1413, 1442, 1468, 1557, 1589, 1628, Indore-M.G Road: MWS-106, 114, 263, 341, 386, 764, 788, 853, 872, 928, 1005, 1353, 1413, 1442, 1468, 1557, 1589, 1628, Indore-M.G Road: MWS-106, 144, 144, 144, 1448, -M. Y Road: MGL-912, MSL-8895, MUL-1119, 1198, 1237, 1263, 1364, 1418, 1847, 1942, 1964, 2244, 2692, 2764, 2785, 2853, Indore - Jawahar Marg: MUL-976, 1366, 1798, 1820, 2602, 2675, Indore-Annapurna: MSL-5257, MUL-822, 868, 873, 935, 980, 1054, 1113, 1246, 1467, 1483, 1506, 1557, 2101, 2308, 2543, Indore - Geeta Bhawan: MUL-886, 888, 952, 1188, 1273, 1274, 1340, 1398, 1441, 1496, 1963, 1985, 2028, 2036, 2048, 2108, 3267, Indore-Mangalnagar: MSL-7873, 7953, 7954, MUL-1805, 2088, 2102, 2111, 2154, 2271, 2510, 2686, 2716, 2829, 2838, 2884, 3044, 3305, 3356, 3568, 3823, 3847, 4186, 4282, 4284, 6435, 6498, 6797, 6834, Vijay Nagar-Indore: MUL-1234, 1812, 1816, 1919, 2008, 2045, 2188, 2202, 2250, 2283, 2408, 2483, 2521, 2579, 2777, 2835, 2868, 2881, 3031, 3067, 3079, 3108, 3127, 3334, 3423, 4135, 4259, 4353, 4376, 4438, 4473, 4496, 4549, 4569, 4583, 45 4719, 4720, 4746, 4802, Indore-Aerodrum Road: MUL-1004, 1036, 1375, 1483, MWS-150, 181, 282, 396, 484, 542, 789, 796, 1166, 1332, 1402, 1436, 1544, 1702, 1748, 2055, 2131, 2255, 2568, 4629, Indore-Tower Choraha Road: MAL-575, MHP-11, MSL-3143, MUL-1114, 1450, 1482, 1676, 1681, 1694, 1889, 2134, 2250, 2314, 2317, 2414, 2451, 2817, 3293, 3571, 3612, 3639, 5755, Indore-Rau: MSL-3001, 3002, MUL-969, 983, 1043, 1143, 1165, 1166, 1248, 1255, 1269, 1302, 1382, 1391, 1428, 1574, 1625, 1641, 1678, 1690, 1755, 1756, 2229, 2256, 2277, 2314, 2458, 2488, 2492, 2554, 2597, 2720, MWS-84, 228, 289, Indore-Chiman Bagh: MUL-883, 1280, 1381, 1399, 1491, 1732, 1733, 1849, 1911, 1925, 2051, 2363, 2427, 2466, 2678, 2757, 2799, 2851, 2910, 2947, 2959, 2960, 3006, 3023, 3082, 3216, 4141, 4333, 4671, Mhow-(MP): MAL-888, MSL-1373, 1457, MUL-184, 308, 886, 1033, 1034, 1035, 1036, 1169, 1373, 1519, 1700, 1704, 2142, 2199, 2203, 2205, 2261, 2266, 2289, 2335, 2435, 2463, 2512, 2518, 2584, 2650, 2652, 2743, 2881, 2970, 2975, 3257, 3603, 3632, 3759, 3808, 3898, 3907, 3984, 4060, 4085, 4314, 4337, 3888, 3898, 3 4391, 4469, 4631, 4639, 4694, 4837, 4889, 5666, Bengali Square-Indore: MUL-975, 1044, 1184, 1524, 1626, 1688, 1850, 1851, 2759, 2760, 2762, 2942, 2959, 2976, 3014, 3147, 3195, 3246, 3266, 3742, 5157, 5165, 5205, 3246, 3266, 3742, 5157, 5165, 5205, 3266 5248, 5445, 5629, Palda-(MP): MSL-373, MUL-874, 1167, 1274, 1315, 1431, 1683, 1688, 1763, 1890, 1922, 1975, 2279, 2347, 2406, 2410, 2429, 2526, 2557, 2783, RGL-312, 350, 444 नकली & कम शुद्धता: Indore-Maharani Road: MUL-1009, Indore-Jawahar Marg: MUL-2874

हालाँकि, कपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी दसरी नीलामी की तारीख को क्रमशः दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की

द्वितिय नीलामी की तिथि: 13.02.2021, Auction Centre: Upper Ground floor, Shop No G-3 & G-4, Apollo Trade Centre, Geeta Bhawan Squire, AB Road, Indore, MP नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

जाएगी / जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति मेंजहा इस सब के बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024 नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461

www.readwhere.com

The information is also available on the Company's website at

(Vishal Goyal)

क्षेत्र दिल्ली" से "बिहार राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए बुधवार 20 जनवरी 2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की

त्रिनगर, नई दिल्ली-110035

Jaykay Enterprises Ltd.

Website- www.jaykayenterprises.com

NOTICE Notice is hereby given pursuant to SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the LODR Regulations'), a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 12, 2021 interalia to consider, approve and take on record Unaudited Consolidated and Standalone 3rd Quarter and Nine Months ended on December 31, 2020 as per as per the

(Prabhat Kumar Mishra)

IEC EDUCATION LIMITED Regd Office: M-92, Connaught Place, New Delhi-110001 CIN: L74899DL1994PLC061053

Pursuant to Regulation 29, read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure hereby given that the a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 10th of February, 2021 at E-216, East of Kailash, New Delhi-110065 at

where the share of the company is listed and also on the Company's website at www.iecgroup.in. By order of the Board For IEC Education Limited

निम : cosec@mstcindia.co.in एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सचीयन

बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में, 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के गैर-लेखापरीक्षित एकत एवं समेकित विलीय परिणामों को विवेचित एवं अनुमोदित करने हेत् कोलकाता में बृहस्पतिबार, 11 फरवरी, 2021 को बीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वे माध्यम से कंपनी के निदेशक मंदल की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, यह सुबना कंपनी की वेबसाइट अर्थात

गोबिंद शगर मिल्स लिमिटेड

के साथ पठित विनियम 47 के अनुवर्ती एतदुद्वार सुचना दी जाती है कि 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौ महीनें के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार व अनमोदन और रिकॉर्ड पर लेने के लिए कंपनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक शुक्रवार, 05 फरवरी, 2021 को आयोजित होना अधिसुचित है सचीकरण विनियमों के विनियम 46 के प्रावधानों में अपेक्षित अनुसार, यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.zuarisugar.com पर और शेयर बाजार की वेबसाइट की वेबसाइट कते गोबिंद शगर मिल्स लिमिटेड